



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

18 फाल्गुन, 1939 (श०)

संख्या- 219 राँची, शुक्रवार,

9 मार्च, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

11 जनवरी, 2018

संख्या- 5/आरोप-1-182/2014 का. 379-- उपायुक्त, राँची के पत्रांक-217(i)/स्था०, दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 द्वारा श्री दिनेश प्रसाद, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-498/03), कार्यपालक दण्डाधिकारी, राँची के विरुद्ध Vigilance (Spl.) Case No. 24/2002, CNR-JHR No.1-000035-2002-दिनेश प्रसाद बनाम झारखण्ड सरकार में दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 को पारित न्यायादेश की प्रति प्राप्त है, जिसमें श्री संतोष कुमार, विशेष न्यायाधीश (Special Judge), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची के न्यायालय द्वारा श्री प्रसाद को दोषी पाते हुए दो साल के सश्रम कारावास एवं 20,000/- रुपये का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया गया है ।

2. अतः श्री प्रसाद को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(ख) के तहत दोष सिद्धि की तिथि दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है ।

3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, द०छो० प्रमंडल, राँची रहेगा। जहाँ वे विभागीय परिपत्र सं०-3838 दिनांक 22 मार्च, 2017 में निहित निदेशों के अनुरूप अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे ।

4. निलंबन अवधि में श्री प्रसाद को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-96 के अन्तर्गत मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
